



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 7 जनवरी, 2021

पौष 17, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

चीनी उद्योग अनुभाग-3

संख्या 2256/46-3-20-28(14)-95

लखनऊ, 7 जनवरी, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

गन्ना उत्पादक जिलों की संख्या, भौगोलिक स्थिति एवं जिलों की सड़क मार्ग से कम दूरी होने तथा गन्ना किसानों एवं चीनी उद्योग के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए, अलीगढ़ एवं मथुरा जिलों को, जो वर्तमान में बरेली परिक्षेत्र के अन्तर्गत है, को बरेली परिक्षेत्र से हटाकर मेरठ परिक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-उक्त संशोधन के उपरान्त बरेली एवं मेरठ परिक्षेत्र में सम्मिलित जिलों की स्थिति निम्नवत् होगी:-

क्रमांक	परिक्षेत्र का नाम	वर्तमान में परिक्षेत्र में सम्मिलित जिले	संशोधन के उपरान्त परिक्षेत्र में सम्मिलित जिले
1	बरेली	बरेली	बरेली
		शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर
		पीलीभीत	पीलीभीत
		बदायूँ	बदायूँ
		कासगंज	कासगंज
		मथुरा	-
		अलीगढ़	-
2	मेरठ	मेरठ	मेरठ
		गाजियाबाद	गाजियाबाद

क्रमांक	परिक्षेत्र का नाम	वर्तमान में परिक्षेत्र में सम्मिलित जिले	संशोधन के उपरान्त परिक्षेत्र में सम्मिलित जिले
		हापुड़	हापुड़
		बागपत	बागपत
		बुलन्दशहर	बुलन्दशहर
		—	मथुरा
		—	अलीगढ़

3—इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को उपर्युक्तानुसार संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,  
संजय आर० भूसरेड्डी,  
अपर मुख्य सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 632 राजपत्र-2021-(1256)-588 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 3 सा० चीनी उद्योग-2021-(1257)-200 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।